

शब्दकोश - २

मुखातिब होना - s'adresser à qqn अपने आपको संभालना - se reprendre
ढिठाई - insolence रूखाई - dureté तफ़रीह - pour le plaisir, s'amuser
टिकाऊ - fixe तरस खाना - avoir la pitié शिखर - comble तन्दरूसती - guérison
तिरस्कारपूर्वक कहना - un ton méprisant बख़्शना - épargner
हाथ के अधिकारपूर्ण इशारे से - signe de main de plein d'autorité निहाल होना - être ravi
सिर नीचा होना - avoir la honte मकसद - but
बदला लेना - tire la vengeance
बदला देना - compenser, équilibrer, réparer सन्नाटा - silence total